



केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
(CENTRAL INSTITUTE OF HINDI, AGRA)

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

(Ministry of Education, Govt. of India)

शैक्षिक पद के लिए आवेदन पत्र (Application Form for Academic Posts)

<p>विज्ञापन संख्या Advertisement No. 11/2020</p> <p>आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि Last Date of Receipt of Application Form 11 JANUARY, 2021</p>	<p>आवेदन पत्र संख्या Application Form No. :</p> <p>पंजीकरण संख्या Registration No : (केवल कार्यालयी उपयोग हेतु) (For Office Use Only)</p>	<p>अद्यतन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएँ <i>Paste your recent Passport Size Photograph</i></p>
---	---	--

आवेदन शुल्क के बैंक भुगतान का विवरण Details of Bank Payment against application fees

डी.डी. क्रमांक और दिनांक DD Number & Date	राशि Amount	बैंक का नाम Name of the Bank	डी.डी. जारी करने वाली बैंक शाखा का नाम DD Issuing Branch's Name

1. पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है

Name of the Post : Applied for :

विषय Subject :

2. आवेदक की विशेषज्ञता का क्षेत्र

Applicant's Area of Specialization :

3. व्यक्तिगत विवरण

Personal Details :

(a) नाम Name	प्रथम नाम First Name	मध्य नाम Middle Name	उपनाम Surname
देवनागरी में In Hindi			
अंग्रेजी में (रोमन बड़े अक्षरों में) In English (Roman capital letter)			

(b) जन्मतिथि Date of Birth	दिन Day	माह Month	वर्ष Year	अंतिम तिथि के दिन आयु Age as on Last date	वर्ष Years	माह Month
(c) पिता का नाम Father's Name						
(d) माता का नाम Mother's Name						
(e) राष्ट्रियता Nationality						
(f) लिंग Gender	पुरुष Male	स्त्री Female	अन्य Other			
(g) धर्म Religion						
(h) समुदाय / श्रेणी Community / Category	सामान्य / अनु.जा. / अनु.जनजा. / एसईबीसी (ओबीसी) / ईडब्ल्यूएस / अन्य श्रेणी GEN / SC/ ST / SEBC (OBC) / EWS / Other Categories : यदि अन्य श्रेणी से संबद्ध हैं तो विवरण दें In other categories give details :					
(i) वैवाहिक स्थिति Marital Status	अविवाहित / विवाहित / परित्यक्त Unmarried / Married / Divorcee					
(j) यदि शारीरिक रूप से अक्षम है तो संदर्भित विवरण दें If physically disabled indicate the relevant particulars	यदि लागू हो तो 'हाँ' लिखें If applicable write 'Yes'	अक्षमता का प्रतिशत Percentage of Disability	संलग्न प्रमाण का क्रमांक Sr. No. of Proof Enclosed			
(i) अल्प दृष्टिपरक अंधता Blindness of Low Vision						
(ii) श्रवण बाधा Hearing Impairment						
(iii) चलन बाधापरक अक्षमता या मस्तिष्क पक्षाघात (अस्थिमूलक विकलांगता के सभी मामलों को सम्मिलित करते हुए) Locomotors disability or Cerebral Palsy (includes all cases of orthopedically Handicapped)						
(k) स्थायी पता Permanent Address	वर्तमान डाक पता पिन कोड सहित Present Postal Address with pin code					
ईमेल E-mail						
मोबाइल / फोन नम्बर / फैक्स Mobile / Phone Number / Fax						
आधार नम्बर Aadhar Number						

4. (a) शैक्षिक योग्यता (यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ें)

Educational Qualifications (attach Additional Pages if required)

	पाठ्यक्रम का नाम Name of the Course	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम Name of the Board / University	उत्तीर्ण करने का माह और वर्ष Month & Year Passed	श्रेणी Division	प्राप्तांकों का प्रतिशत % of Marks	पूर्णांक Aggregate Marks	सीजीपीए (यदि ग्रेडिंग लागू है) CGPA (if Grading is Applicable)	विषय Subjects	संलग्न प्रमाण का क्रमांक Sr. No. of Proof Enclosed
	कक्षा 10 / समकक्ष 10 th Class / Equivalent								
	कक्षा 12 / समकक्ष 12 th Class / Equivalent								
	स्नातक Graduation								
	स्नातकोत्तर Post-Graduation								
	एम.फिल. M. Phil.								
	पी-एच.डी. Ph. D.								
	अन्य Other								
राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) NET Certificate No. यूजीसी / सीएसआईआर / अन्य संगठन (कृपया स्पष्ट उल्लेख करें) UGC / CSIR / Any other organization (Please specify)				विषय Subject		अनुक्रमांक Roll No.	वर्ष Year		
नेट के समकक्ष उत्तीर्ण कोई अन्य परीक्षा राज्य / राजकीय पात्रता परीक्षा (जैसे स्लेट / सेट) Any other Exam passed equivalent of NET (SLET / SET etc.)									
क्या पी-एच.डी. उपाधि प्रदान की जा चुकी है ? Indicate whether ph. D. degree has been awarded				हाँ / नहीं शीर्षक Topic : Yes / No					
यदि हाँ तो निम्नलिखित सूचनाएँ दें In case yes please submit the following	पी-एच.डी. पंजीकरण दिनांक Ph.D. Date of Registration			जमा किए जाने की तिथि Date of Submission		अधिसूचना का दिनांक Date of Notification		संलग्न प्रमाण का क्रमांक Sl. No. of Proof Enclosed	
	दिन Day	माह Month	वर्ष Year						
4.(b)	क्या पी-एच.डी. उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पी-एच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की गई है ? Whether Ph.D. Degree has been awarded in accordance with the provisions of UGC (Minimum Standards & Procedures for award of M. Phil. / Ph.D. Degree) regulations 2009				हाँ / नहीं Yes / No		यदि 'हाँ' तो कृपया आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करें (in case of yes please enclose necessary certificate)		

5. कालक्रमानुसार अनुभव (वर्तमान पद / सेवायोजन को सम्मिलित करते हुए)

Experience in Chronological order (including current position / Employment)

पद एवं वेतनमान Designation & Scale of Pay / Level	नियोक्ता का नाम और पता Name & Address of the Employer	सेवायोजन की प्रकृति (स्थायी / अस्थायी / अनुबंध / अन्य (स्पष्ट करें) Nature of Employment (Permanent / Temporary / Contract / Other) (Specify)	अनुभव की अवधि Period of Experience		कुल अवधि वर्ष / माह (विज्ञापन तिथि पर) No. of Years / Months (as on day of adv.)	कार्यदायित्वों की प्रकृति Nature of Work / Duties	संलग्न प्रमाण का क्रमांक Sr. No. of Proof Enclosed
			कब से From	कब तक To			

6. शिक्षण अनुभव -

Teaching experience

(a) शिक्षण Teaching	वर्ष No. of Years	माह No. of Months	संलग्न प्रमाण का क्रमांक Sr. No. of Proof Enclosed
(i) स्नातक स्तर Graduation Level			
(ii) स्नातकोत्तर स्तर Post Graduation Level			
(b) पोस्ट डॉक्टोरल : शिक्षण / अनुसंधान Post-Doctoral : Teaching / Research			
(c) शोध / अनुसंधान अनुभव Research Experience			
(d) अन्य अनुभव यदि हों तो Other Experience, if any			

7. वर्तमान पद

Present Position

पदनाम Designation	संस्था का नाम Name of the Institution	संस्था की प्रकृति (सरकारी / स्वायत्तशासी निकाय / स्ववित्तपोषित / निजी / गैर-सरकारी संगठन / अन्य) (स्पष्ट करें) Nature of Institution (Govt. / Autonomous Body / Self Financing / Private / NGO / Others) (Specify)	मूल वेतन एवं वेतनमान Basic Pay & Pay Scale/Level	सकल वेतन / कुल वेतन प्रतिमाह (रु. में) Gross Pay / Total Salary Per Month (in Rs.)	संलग्न प्रमाण का क्रमांक Sl. No. of Proof Enclosed

8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकादमिक स्टॉफ कॉलेज द्वारा संचालित पुनश्चर्या / अभिविन्यास (नवीकरण) या समकक्ष कार्यक्रम जिनमें सहभागिता की हो (प्रमाण संलग्न करें)

UGC Academic Staff College Refresher / Orientation or equivalent course attended (Enclosed Proof)

पाठ्यक्रम का नाम Name of the Course	स्थान Place	अवधि Duration	प्रायोजक संस्था (एजेंसी) Sponsoring Agency

9. सम्मेलन / संगोष्ठी आदि

Conference / Seminars etc.

सहभागिता की कोटि Category of Participation	शीर्षक, स्थान, दिनांक Title, Place & Date (with total No.)	संलग्न साक्ष्यों का क्रम Sl. No. of Proof Enclosed
संगोष्ठी / सम्मेलन / कार्यशाला / परिसंवाद (सिम्पोजियम) प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि, जो आपके द्वारा आयोजित किए गए Seminars / Conference / Workshops / Symposiums / Training Programmes etc. Organised		
संगोष्ठी / सम्मेलन / कार्यशाला / परिसंवाद (सिम्पोजियम) प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि जिनमें केवल उपस्थित हुए Seminars / Conference / Workshops / Symposiums / Training Programmes etc. Attended Only		

नोट – आवश्यकतानुसार दिए गए निर्धारित प्रारूप में विवरण पृथक् से संलग्न करें।

Enclose the details separately on separate sheet in prescribed format if required.

10. पेशेवर संस्थाओं / संगठनों की सदस्यता

Membership in Professional Bodies

संस्था / संगठन का नाम Name of the Organization	वार्षिक सदस्यता Annual Membership	आजीवन सदस्यता Life Membership	सदस्यता संख्या Membership No.	संलग्न प्रमाण पत्र का क्रमांक Sl. No. of Proof Enclosed

11. अन्य श्रेयस्कर उपलब्धियाँ, विशिष्ट योगदान, पुरस्कार जिनका पूर्व में उल्लेख नहीं किया गया है

Details of any other credentials, significant contributions, award, received not mentioned earlier :

क्र.संख्या Sl. No.	विवरण Details

12. तीन संदर्भदाता

References (Three)

	संदर्भदाता - 1 Referee – 1	संदर्भदाता - 2 Referee – 2	संदर्भदाता - 3 Referee - 3
नाम और पूरा डाक पता Name & Complete Postal Address			
ई-मेल E-mail			
मोबाइल नम्बर Mobile No.			

13. केंद्रीय हिंदी संस्थान में आवेदन करने का उद्देश्य कथन (हिंदी में 500 शब्दों में)

Statement of purpose about applying in Kendriya Hindi Sansthan (500 words in Hindi) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....

14. संलग्न स्वप्रमाणित प्रमाण-पत्रों आदि की कुल संख्या (स्वप्रमाणित प्रमाण-पत्रों, अंक पत्रों आदि दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा)

Total no. of self attested testimonials attached (Applications without self attested Certificates, Mark sheets etc. will not be entertained) :

.....
.....

संलग्नक विवरण –

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

घोषणा / DECLARATION

मैं.....पुत्र / पुत्री घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन में उल्लिखित समस्त सूचनाएं एवं विवरण मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही एवं संपूर्ण हैं। इनमें से यदि कोई भी सूचना चयन समिति और शासी परिषद की बैठकों से पहले या बाद में असत्य या अशुद्ध पायी जाती है तो केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा मेरी पात्रता / नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

I.....Son/Daughter of.....hereby declare that all the statements and entries made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false or incorrect or ineligibility being detected before or after the selection committee and Governing Council meetings, my candidature/appointment may be cancelled by KHS.

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of the Applicant

नाम (बड़े अक्षरों में) Name (in block letters) :

(जिन आवेदनों पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं होंगे उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा)
(Application not signed by the candidate is liable to be rejected)

Date :

नियोक्ता द्वारा समर्थन पत्र / पृष्ठांकन
ENDORSEMENT BY THE EMPLOYER

(सेवारत अभ्यर्थियों के मामले में निम्नलिखित समर्थन पत्र संस्थाध्यक्ष अथवा संस्था संगठन के नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं अग्रसारित किया जाना चाहिए)
(The endorsement below is to be signed & Forwarded by the Head of the Institution or Employer of the organization/institution in the case of the in-service candidate)

केंद्रीय हिंदी संस्थान को अग्रसारित
FORWARDED TO KENDRIYA HINDI SANSTHAN, AGRA

आवेदक डॉ./श्री/श्रीमती/कु. जिन्होंने केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में
पद के लिए यह आवेदन प्रस्तुत किया है, नामक संस्था / संगठन में
पद पर अस्थायी / संविदा / स्थायी रूप से दिनांक से रु. वेतनमान में कार्यरत हैं। वर्तमान
समय में ये रु. मूलवेतन प्राप्त कर रहे हैं।

The applicant Dr./Mr./Mrs./Ms who has submitted this application for the post of
..... in Kendriya Hindi Sansthan, Agra has been working in this Institution / organization
namely.....in the post of in a
temporary/contract/permanent capacity with effect fromin the scale of pay of Rs.
..... He/She is drawing a basic pay of Rs.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक विज्ञापित पद के अनुरूप अपेक्षित योग्यता एवं अनुभव रखता है। उक्त आवेदक के विरुद्ध कोई भी
अनुशासनहीनता अथवा सतर्कता का कोई मामला न तो हुआ है, न विचाराधीन है और न लंबित है। केंद्रीय हिंदी संस्थान में इनके आवेदन पर विचार किए
जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

Further, it is certified that the applicant has requisite qualifications /experiences as per the post advertised. No
disciplinary/vigilance case has ever been held or contemplated or is pending against the said applicant. There is no
objection for his/her application being considered by Kendriya Hindi Sansthan, Agra.

अग्रसारक अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Forwarding Officer

मुहर SEAL

नाम Name :

पदनाम Designation :

स्थान Place :

दिनांक Date :